



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 3, 2008—मई 9, 2008 (वैशाख 13, 1930)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3, 2008—MAY 9, 2008 (VAISAKHA 13, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be kept as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	295	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) के केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की अपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्रविष्टित पाठ (ऐसे पत्रों को छोड़कर जो भारत के एकत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	400	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक विधम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्प और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, निर्यंत्रक और महासूचनापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	3545
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	485	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	175
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1335
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के जिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	93
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और अपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के अंकनों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	295	than the Administration of Union Territories)..... *	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	409	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	485	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3545
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	175
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	1335
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	93
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2008

संकल्प

सं ए-11011/1/2007-स्थापना-III.--

इस मंत्रालय में जन प्रचार एकक (एम एम यू) जो इसमें उपलब्ध घिसी-पिटी मुद्रण मशीनें होने के कारण काम करने योग्य नहीं रह गई हैं और पुरानी प्रौद्योगिकी तथा अन्य तर्कों जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, के कारण बेकार हो गई हैं, के पुनरुत्थान में सरकार द्वारा अनुभव की जा रही विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि इस मुद्रणालय को 1 अप्रैल, 2008 से बंद कर दिया जाए:

- (i) मुद्रण प्रौद्योगिकी में द्रुतगति से हुए परिवर्तन;
- (ii) मुद्रण मशीनों को बदलना महंगा;
- (iii) भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों और निजी मुद्रणालयों के माध्यम से मुद्रण संबंधी सुविधाओं की पर्याप्त और यथोचित रूप से सस्ती सुविधाओं की उपलब्धता।

2. इस मुद्रणालय के बंद हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित पद 1 अप्रैल, 2008 से उनके फालतू हो जाने कारण समाप्त हुए समझे जायेंगे। तथापि, समाप्त किए जा रहे पदों पर अभी तक काम कर रहे व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए इस विभाग में 20 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे जैसाकि नीचे दी गई तालिका के कॉलम 6 में उल्लिखित किया गया है। ये अतिरिक्त पद केवल उसी समय तक जारी रहेंगे जब तक इन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को किसी अन्य पद पर पुनः तैनात नहीं कर दिया जाता अथवा जब तक कि वे किसी भी कारण से पद को छोड़ नहीं देते:

क्रम संख्या	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या			सृजित किए जाने वाले अतिरिक्त पदों की संख्या
		मंजूरशुदा	समाप्त समझे जाने वाले पद	रखे जाने वाले पद	
1	2	3	4	5	6
1.	नियंत्रक (एम एम यू) (12,000-16,500 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
2.	मुख्य संपादक (12,000-16,500 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य

3.	संपादक (अंग्रेजी) (10,000-15,200 रुपए)	1	शून्य	1	शून्य
4.	संपादक (हिन्दी) (10,000-15,200 रुपए)	1	शून्य	1	शून्य
5.	उत्पादन प्रबंधक (10,000-15,200 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
6.	प्रकाशन अधिकारी (10,000-15,200 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
7.	हस्तलिपि लेखक (10,000-15,200 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
8.	विजुएलाईजर (10,000-15,200 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
9.	उप-प्रबंधक (7,450-11,500 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
10.	सहायक सम्पादक (अंग्रेजी) (6,500-10,500 रुपए)	1	शून्य	1	शून्य
11.	सहायक सम्पादक (हिन्दी) (6,500-10,500 रुपये)	1	1	शून्य	शून्य
12.	वरिष्ठ कलाकार (6,500-10,500 रुपये)	3	2	1	शून्य
13.	तकनीकी अधिकारी (6,500-10,500 रुपये)	1	1	शून्य	1
14.	उप-संपादक (अंग्रेजी) (5,500-9,000 रुपए)	1	शून्य	1	शून्य
15.	आर्टिस्ट रिटाऊचर (5,000-8,000 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
16.	जेस्टाफैक्स-सह-डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर, (5,500-8,000 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
17.	मुख्य रीडर/प्रभारी, शोधन अनुभाग (5,000-8,000 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
18.	वरिष्ठ बेरीटाइप-सह-हेडलाइन ऑपरेटर (5,000-8,000 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
19.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (टी) (4,500-7,000 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
20.	सेक्शन होल्डर (बाइंडर) (4,500-7,000 रुपए)	1	1	शून्य	1

21.	सहायक आर्टिस्ट रिटाऊचर (4,500-7,000 रुपए)	1	1	शून्य	1
22.	कैमरा मैन-सह.हेलियो आपरेटर (4,500-7,000 रुपए)	2	2	शून्य	1
23.	मशीन आपरेटर (4,500-7,000 रुपए)	5	5	शून्य	2
24.	वेरिटाइप-सह-आई बी एम आपरेटर (4,000-6,000 रुपए)	5	5	शून्य	3
25.	मेकेनिक (4,000-6,000 रुपए)	2	2	शून्य	शून्य
26.	हेलियो आपरेटर (4,000-6,000 रुपए)	1	1	शून्य	1
27.	प्रूफ शोधक (4,000-6,000 रुपए)	3	3	शून्य	शून्य
28.	ट्रीडल मशीन आपरेटर (4,000-6,000 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
29.	बाइंडर ग्रेड-I (4,000-6,000 रुपए)	2	2	शून्य	शून्य
30.	बाइंडर (3,050-4,590 रुपए) ()	4	4	शून्य	1
31.	हैंड कम्पोजीटर (3,050-4,590 रुपए)	4	4	शून्य	शून्य
32.	फीडर (3,050-4,590 रुपए)	5	5	शून्य	1
33.	प्रैनिंग मशीन आपरेटर 3,050-4,590	1	1	शून्य	शून्य
34.	टाइम कीपर (3,050-4,590 रुपए)	1	1	शून्य	1
35.	हेल्पर (2,550-3,200 रुपए)	10	10	शून्य	6
36.	फराश (2,550-3,200 रुपए)	2	2	शून्य	शून्य
37.	चौकीदार (2,550-3,200 रुपए)	3	3	शून्य	शून्य
38.	लेबर (2,550-3,200 रुपए)	10	10	शून्य	शून्य

39.	सफाई वाला (2,550-3,200 रुपए)	1	1	शून्य	शून्य
	कुल	85	80	5*	20

* उपर्युक्त तालिका के कॉलम 5 में इंगित 5 पदों को नीचे पैरा 3 में यथोल्लिखित के अनुसार रखे जाएंगे।

3. निम्नलिखित जीविन्त पदों, जो एम एम यू (मुद्रणालय) की मंजूरशुदा संख्या के भाग थे, को रखा जाएगा और इस मंत्रालय के सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण प्रभाग में कार्य के लिए पुनः लगाया/नियुक्त किया जाएगा:

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	संपादक (अंग्रेजी)	10,000- 15,200 रुपए	1
2.	संपादक (हिन्दी)	10,000- 15,200 रुपए	1
3.	वरिष्ठ आर्टिस्ट	6,500- 10,500 रुपए	1
4.	सहायक सम्पादक (अंग्रेजी)	6,500- 10,500 रुपए	1
5.	उप संपादक (अंग्रेजी)	5,500- 9,000 रुपए	1
	कुल		5

आदेश :

1. आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित की जाए।
2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संजय प्रसाद

निदेशक

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2008

संकल्प

सं. एल-11012/10/2007-सीईटी.--

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय श्रमिक सहकारिता परामर्शदात्री परिषद (एनएसीएलसी) का पुनर्गठन किया जाए। परिषद का संघटन निम्न प्रकार से होगा-

अध्यक्ष- केन्द्रीय कृषि मंत्री
उपाध्यक्ष- केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री

- 1. सदस्य केन्द्रीय सरकार**
1. सचिव, श्रम मंत्रालय
 2. सचिव, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय
 3. निर्माण महा निदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय
 4. सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय
 5. सलाहकार (औद्योगिक संबंध), रेलव बोर्ड
 6. सलाहकार (कृषि एवं ग्रामीण विकास), योजना आयोग
 7. वन महा निरीक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
 8. अपर सचिव, (सहकारिता) कृषि एवं सहकारिता विभाग
 9. संयुक्त सचिव, जनजातीय मंत्रालय

- 11. प्रतिनिधि राज्य सरकार**
1. सहकारिता मंत्री, महाराष्ट्र
 2. वन मंत्री, महाराष्ट्र
 3. सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़
 4. सहकारिता मंत्री, पश्चिम बंगाल
 5. सहकारिता मंत्री, आंध्र प्रदेश
 6. विकास मंत्री, रा०रा०क्षेत्र दिल्ली सरकार
 7. सचिव, सहकारिता, कर्नाटक सरकार
 8. सचिव, लो०नि०वि, पंजाब सरकार

III. प्रतिनिधि- राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सहकारी संस्थान

1. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी संघ लि०, नई दिल्ली, प्लॉट नं० 11, सरिता विहार, सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110076
2. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ, नई दिल्ली, 4 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, होज खास, नई दिल्ली-110016
3. मुख्य कार्यकारी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली, 4 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली
4. अध्यक्ष, रेलवे श्रमिक संविदा सहकारी सोसाइटी लि., 14 कोचेरिन बेसिन रोड बेसिन, त्रिज, चैन्नै-600021 (तमिलनाडु)
5. प्रबंधन निदेशक, हरियाणा राज्य श्रमिक सहकारी संघ, बे.सं. 23-24, सेक्टर-11 पंचकुला (हरियाणा)
6. प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य वन श्रमिक सहकारी संघ, कैम्प कार्यालय, श्री दोसार वैश्य भवन, सेंट्रल एवेन्यू रोड, नागपुर, महाराष्ट्र।
7. प्रबंध निदेशक, एम पी राज्य लघु वन उत्पाद (टी एण्ड डी) सहकारी संघ लि., 74 बांगले, खेल परिसर, इन्दिरा निकुंज भोपाल, मध्य प्रदेश।
8. अध्यक्ष, पंजाब राज्य सहकारी श्रमिक और निर्माण संघ लि. कोठी नं. 3239, सेक्टर 23 डी, चण्डीगढ़।

IV प्रतिनिधि - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

आई एल ओ, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

V. प्रतिनिधि - बीमा

मै० ओरिएण्टल इश्युरेंस कं० लि०, नई दिल्ली द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।

VI. गैर-सरकारी

1. श्री पी. रमेशन, अध्यक्ष, यूरालुंगल श्रमिक संविदा सहकारी सोसाइटी लि., पी.ओ. महापैली कालेज, वाताकारे कोझीकोड-67321102, केरल
2. श्री डब्ल्यू.जेड टेकम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जंगल कामगार सहकारी संघ लि. कैम्प कार्यालय, श्री दोसार वैश्य भवन, हंसापुरी सेंट्रल एवेन्यु रोड, नागपुर, महाराष्ट्र

VII. सदस्य-सचिव

संयुक्त सचिव (सहकारिता)/केन्द्रीय पंजीयक, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

2. परिषद के विचारणीय विषय निम्नलिखित हैं :-

- (क) श्रमिक सहकारियों की कार्य-प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करना।
- (ख) कार्यक्रम में कामगारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनके बीच पहल और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए उपायों का सुझाव देना।
- (ग) सहकारी समितियों के पक्ष में कार्य-ढेका एजेंसियों द्वारा कुशल और अकुशल कार्यों के आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का सुझाव देना।
- (घ) श्रमिक सहकारी समितियों के लिए नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी समर्थन पर सलाह देना।
- (ङ) इन सहकारी समितियों के सदस्यों के कौशल विकास के लिए श्रमिक सहकारी समितियों और व्यवस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों को बनाने पर सलाह देना, और
- (च) ऐसे अन्य उपायों पर सलाह देना जो परिषद के विचारणीय विषयों के लिए संगत हैं।

3. परिषद, जब कभी आवश्यक समझे, श्रमिक सहकारी समितियों के कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के समाधान के लिए समितियां नियुक्त कर सकती है। ऐसी समितियां विशिष्ट समस्याओं या उपयुक्त फील्ड अनुभव रखने वालों का सह-वरण कर सकती हैं।

4. सरकारी प्रतिनिधियों और विभिन्न सहकारी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों के लिए किसी टी ए/डी ए का भुगतान नहीं किया जाएगा। वह संगठन, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, टी ए/ डी ए इत्यादि की लागत को पूरा करेगा। वे व्यक्ति जो किसी संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और उन्होंने परिषद और इसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने का अनुरोध किया है, उन्हें भारत सरकार के ग्रेड-1 के अधिकारियों के लिए अनुमत टी ए/डी ए का भुगतान किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को संप्रोषत की जाए।

यह भी आदेश किया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सतीश चन्द्र
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2008

संकल्प

सं. एफ 6-5/2005-यू 3.--

जबकि भारत सरकार ने दिनांक 28 सितंबर, 2005 को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, सोसायटी, शिमला का पुनर्गठन किया है। प्रो. सत्यसाची भट्टाचार्य, जो कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसायटी के एक नामित सदस्य थे, को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। तदनुसार एक पद रिक्त हो गया है। अतः भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान सोसायटी, शिमला की नियमावली और विनियमों के नियम 3 (ख) (ii), 25 और 30 के प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा श्री यमुना प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, कार्यकारी परिषद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को सदस्यता की शेष कार्यावधि के लिए सदस्य के रूप में नामित करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उपमन्त्रि वसु
निदेशक (आई.सी.आर.)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. एफ. 10-6/2007-यू.-3(ए).--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर सिम्बायोसिस अंतराष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पुणे जिसमें (i) सिम्बायोसिस कम्प्यूटर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान (ii) सिम्बायोसिस व्यापार प्रबंधन संस्थान और (iii) सिम्बायोसिस सोसायटीज लॉ कॉलेज शामिल हैं, को 6 मई, 2002 को इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 9-12/2001-यू. 3 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत समविश्वविद्यालय घोषित किया गया था;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर 10 नवम्बर, 2006 के इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ. 9-12/2006-यू. 3 (ए) के द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सिम्बायोसिस अंतराष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, समविश्वविद्यालय, पुणे के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाली निम्नलिखित 10 संस्थाओं को शामिल किया गया;

- (i) सिम्बायोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट एण्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
- (ii) सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस
- (iii) सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम मैनेजमेंट
- (iv) सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज
- (v) सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन
- (vi) सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ आपरेशन्स मैनेजमेंट
- (vii) सिम्बायोसिस सेंटर फॉर इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी
- (viii) सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ जीओइन्फारमेटिक्स
- (ix) सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ राईजिंग
- (x) सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन

4. और जबकि सिम्बायोसिस अंतराष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र को इस मंत्रालय के दिनांक 25 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 9-11/2008 यू. 3(ए) के द्वारा इसे सिम्बायोसिस अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया;

5. और जबकि उक्त समविश्वविद्यालय संस्था से बंगलौर में आफ कैम्पस सेंटर आरंभ करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

6. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है तथा दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के अपने पत्र संख्या एफ. 30-14/2007 (सी.पी.पी.-I) के ज़रिए इस मंत्रालय से सह सिफारिश की है कि सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर को सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय समविश्वविद्यालय, पुणे के आफ कैम्पस के रूप में मान्यता प्रदान करे;

7. अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और उक्त पैरा 6 में उल्लिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर एतद्द्वारा सह अनुमति प्रदान करती है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर एक आफ कैम्पस केन्द्र होगा बशर्ते कि यह संस्थान मार्केटिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, आपरेशनल मैनेजमेंट, मानव संसाधन विकास आदि जैसे कार्यात्मक और सेक्टरल क्षेत्रों में प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों के संबंध में 150 छात्रों की दायित्व क्षमता को बनाए रखेगा;

8. इस उद्घोषणा के साथ केन्द्र सरकार सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 'समविश्वविद्यालय', पुणे को सिम्बायोसिस प्रबंधन संस्थान, बंगलौर में प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम अर्थात् एम.बी.ए. शुरू करने के लिए तथा शैक्षणिक वर्ष 2008-09 उक्त पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को दाखिल करने की अनुमति प्रदान करती है बशर्ते कि नई प्रबंध संस्थाएं शुरू करने, नए प्रबंध और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने, छात्रों की दाखिला क्षमता आदि के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विस्तृत मार्गदर्श्यों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाए। 'समविश्वविद्यालयों' संस्था की शुल्क संरचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमावली एवं शिथिलियों के अनुसार होगी। सिम्बायोसिस प्रबंध संस्थान, बंगलौर के कार्यनिष्पादन का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शुरू तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष और उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद मानीटरन करेगा।

9. उक्त पैरा 7 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठंकन की कम संख्या 4 में उल्लिखित परिस्थितियों की शर्त पर होगा।

10. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अथवा इसकी घटक शिक्षण इकाइयों को कोई योजनागत और योजनाएतत्तर सहायता अनुदान प्रदान नहीं करेगा।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 अप्रैल 2008

विषय: ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना'।

सं. 11019(2)/2003- हिंदी-पार्ट-I

इस मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के का.ज्ञा.सं. 11019(2)/87- हिंदी और दिनांक 5 मई, 2004 के आदेश सं. 11019(2)/2003- हिंदी-पार्ट-I के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष (कैलेंडर वर्ष 2007) से पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई है जो इस प्रकार से है :-

1. प्रथम पुरस्कार -	20,000/- रु से बढ़ाकर	50,000/- रु.
2. द्वितीय पुरस्कार -	15,000/- रु. से बढ़ाकर	30,000/- रु.
3. तृतीय पुरस्कार -	10,000/- रु. से बढ़ाकर	20,000/- रु.

2. तदनुसार उपर्युक्त दिनांक 27.4.1988 के का.ज्ञा. का पैरा 3 संशोधित समझा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत के सभी विश्वविद्यालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए. के. कौशिक
उप-सचिव

**MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)**

New Delhi, the 28th March 2008

RESOLUTION

No. A. 11011/1/2007-Estt.III

Keeping in view the various constraints being experienced by the Government in revival of the Mass Mailing Unit (MMU) Press in this Ministry, which has become non-functional because the printing machines available with the Press are worn out and have become unviable due to obsolete technology and other considerations, as mentioned below, it has been decided with the approval of the competent authority to close the Press with effect from 1st of April 2008:

- (i) Rapid changes in the Printing technology;
- (ii) The replacement of the Printing Machines being uneconomical;
- (iii) Adequate and reasonably economical availability of the printing facilities through the other Government of India Presses and Private Presses;

2. Consequent upon the closure of the Press, the posts mentioned in column 4 of the following table shall stand abolished upon their having become surplus with effect from 1st April 2008. However, to accommodate those individuals who are still working against the posts, which are being abolished, 20 supernumerary posts shall be created in this Department as mentioned in column 6 of the table given below. The supernumerary posts will continue only till the time the persons holding these posts are relocated to some other post or till they cease to hold the post for any reason:

S. No.	Designation/ Scale	Number of posts			No. of supernumerary posts which shall be created
		Sanctioned	which shall stand abolished	which shall be retained *	
1	2	3	4	5	6
1	Controller (MMU) (Rs. 12,000-16,500/-)	1	1	NIL	NIL
2	Chief Editor (Rs. 12,000-16,500/-)	1	1	NIL	NIL
3	Editor (English) (Rs. 10,000-15,200/-)	1	NIL	1	NIL
4	Editor (Hindi) (Rs. 10,000-15,200/-)	1	NIL	1	NIL
5	Production Manager (Rs. 10,000-15,200/-)	1	1	NIL	NIL
6	Publication Officer (Rs. 10,000-15,200/-)	1	1	NIL	NIL
7	Script Writer (Rs. 10,000-15,200/-)	1	1	NIL	NIL
8	Visualiser (Rs. 10,000-15,200/-)	1	1	NIL	NIL

9	Deputy Manager (Rs. 7,450-11,500/-)	1	1	NIL	NIL
10	Assistant Editor (English) (Rs. 6,500-10,500/-)	1	NIL	1	NIL
11	Assistant Editor (Hindi) (Rs. 6,500-10,500/-)	1	1	NIL	NIL
12	Senior Artist (Rs. 6,500-10,500/-)	3	2	1	NIL
13	Technical Officer (Rs. 6,500-10,500/-)	1	1	NIL	1
14	Sub Editor (English) (Rs. 5,500-9,000/-)	1	NIL	1	NIL
15	Artist Retoucher (Rs. 5,000-8,000/-)	1	1	NIL	NIL
16	Gestafax-cum-Duplicate Machine Operator (Rs. 5,000-8,000/-)	1	1	NIL	NIL
17	Head Reader/ Incharge Proof Section (Rs. 5,000-8,000/-)	1	1	NIL	1
18	Senior Veritype-cum- Headline Operator (Rs. 5,000-8,000/-)	1	1	NIL	NIL
19	Jr. Technical Asstt. (T) (Rs. 4,500-7,000/-)	1	1	NIL	NIL
20	Section Holder (Bindary) (Rs. 4,500-7,000/-)	1	1	NIL	1
21	Assistant Artist Retoucher (Rs. 4,500-7,000/-)	1	1	NIL	1
22	Cameraman-cum-Helio Operator (Rs. 4,500-7,000/-)	2	2	NIL	1
23	Machine Operator (Rs. 4,500-7,000/-)	5	5	NIL	2
24	Veritype-cum-IBM Operator (Rs. 4,000-6,000/-)	5	5	NIL	3
25	Mechanic (Rs. 4,000-6,000/-)	2	2	NIL	NIL
26	Helio Operator (Rs. 4,000-6,000/-)	1	1	NIL	1
27	Proof Reader (Rs. 4,000-6,000/-)	3	3	NIL	NIL
28	Treadle Machine Operator (Rs. 4,000-6,000/-)	1	1	NIL	NIL
29	Binder Grade I (Rs. 4,000-6,000/-)	2	2	NIL	NIL
30	Binder (Rs. 3,050-4,590/-)	4	4	NIL	1
31	Hand Compositor (Rs. 3,050-4,590/-)	4	4	NIL	NIL

32	Feeder (Rs.3,050-4590/-)	5	5	NIL	1
33	Graining Machine Oprt. (Rs.3,050-4590/-)	1	1	NIL	NIL
34	Time Keeper (Rs.3050-4590/-)	1	1	NIL	1
35	Helper (Rs. 2,550-3,200/-)	10	10	NIL	6
36	Farash (Rs. 2,550-3,200/-)	2	2	NIL	NIL
37	Chowkidar (Rs. 2,550-3,200/-)	3	3	NIL	NIL
38	Labour (Rs. 2,550-3,200/-)	10	10	NIL	NIL
39	Safaiwala (Rs. 2,550-3,200/-)	1	1	NIL	NIL
Total		85	80	5*	20

* The 5 posts indicated in column 5 of the above table shall be retained as mentioned in para 3 below.

3. The following live posts, which were part of the sanctioned strength of the MMU (Press) shall be retained and redeployed to work in the Information, Education and Communication (IEC) Division of this Ministry:

S. No.	Designation	Scale of Pay	No. of Posts
1	Editor (English)	Rs. 10,000-15,200/-	1
2	Editor (Hindi)	Rs. 10,000-15,200/-	1
3	Senior Artist	Rs.6,500-10,500/-	1
4	Assistant Editor (English)	Rs. 6,500-10,500/-	1
5	Sub Editor (English)	Rs. 5,500-9,000/-	1
Total			5

ORDER:

1. Ordered that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries/ Departments of the Government of India.
2. Also ordered that the resolution be published in the Gazette of India.

SANJAY PRASAD
Director

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 7th April 2008

No. L-11012/10/2007-CET.—

RESOLUTION

With the approval of the competent authority, it has been decided to re-constitute the National Advisory Council on Labour Cooperatives (NACLC) for a period of two years. The composition of the Council will be as follows:-

Chairman	-	Union Agriculture Minister
Vice-Chairman	-	Union Minister of State for Agriculture

I. Members -Union Government

1. Secretary, Ministry of Labour
2. Secretary, Ministry of Rural Areas and Employment.
3. Director-General of Works, Central Public Works Department, Ministry of Urban Development
4. Secretary, Ministry of Surface Transport
5. Advisor (Industrial Relations), Railway Board.
6. Advisor (Agriculture & Rural Development), Planning Commission.
7. Inspector General of Forests, Ministry of Environment & Forests
8. Additional Secretary (Cooperation) Department of Agriculture & Cooperation
9. Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs.

II. Representatives -State Governments

1. Minister for Cooperation, Maharashtra
2. Minister for Forest, Rajasthan
3. Minister for Cooperation, Chattishgarh
4. Minister for Cooperation, West Bengal
5. Minister for Cooperation, Andhra Pradesh
6. Minister for Development, Govt. of NCT of Delhi
7. Secretary, Cooperation, Govt. of Karnataka
8. Secretary, PWD, Government of Punjab

III. Representatives - National / State Level Cooperative Institutions,

1. Chairman, National Labour Cooperatives Federation of India Ltd., New Delhi, Plot No. 11, Sarita Vihar Institutional Area, New Delhi-110076
2. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi, 4 Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016.
3. Chief Executive, National Cooperative Union of India, New Delhi, 3 Siri Institutional Area, Khel Gaon Marg, Hauz Khas, New Delhi

4. President, Railway Labour Contract Cooperative Society Ltd., 14, Cocharin Basin Road, Basin Bridge, Chennai-600021 (Tamil Nadu).
5. Managing Director, Haryana State Labour Cooperative Federation, Bay No.23-24, Sector-II, Panchkula (Haryana).
6. Managing Director, Maharashtra State Forest Labour Cooperative Federation, Camp Office: Shree Dossar Valshya Bhawan, Central Avenue Road, Nagpur, Maharashtra.
7. Managing Director, M.P. State Minor Forest Produce (T&D) Coop. Federation Ltd., 74 Bangle, Khel Parisar, Indira Nikunj Bhopal, Madhya Pradesh.
8. Chairman, Punjab State Co-operative Labour & Construction Federation Ltd., Kothi No.3239, Sector-23.D, Chandigarh.

IV. Representative - International Labour Organisation

One Representative of ILO, New Delhi

V. Representative - Insurance

One representative nominated by M/s. Oriental Insurance Co. Ltd., New Delhi

VI. Non-Officials

1. Shri P. Rameshan, President, The Uralungal Labour Contract Cooperative Society Ltd., P.O. Madapally College, Vatakare Kozhidoor 673 102, Kerala
2. Shri W.Z. Tekam, Chairman, Maharashtra Rajya Jungle Kamgar Sahakari Sangh Ltd., Camp Office Shree Dossar Valshya Bhawan, Hansapuri Central Avenue Road, Nagpur, Maharashtra

VII. Member - Secretary

Joint Secretary (Cooperation)/Central Registrar, Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi

2. The terms of reference of the Council are:-

- (a) To review the progress of the working of Labour Cooperatives.
- (b) To suggest measures for enlisting active participation of workers in the programme and promoting initiative and leadership among them.
- (c) To suggest guidelines for reservation of skilled and unskilled works by work-awarding agencies in favour of cooperatives.

- (d) To advise on policy, administrative, financial and technical support to labour cooperatives.
- (e) To advise on the formulation of programmes relating to labour cooperatives and arrangements for skill development of the members of these cooperatives, and
- (f) To advise on such other measures as are relevant to the terms of reference of the Council.

3. The Council may, whenever considered necessary, appoint Committees to deal with different aspects of the programme of labour cooperatives. Such committees may co-opt for specific problems or having appropriate field experience.

4. No TA/DA will be paid to the Government representatives and other members representing various cooperatives interests. The organization, which they represent, ~~should~~ meet the cost of TA/DA etc. Persons not representing any organization and requested to attend the meetings of the Council and its Committees, will be paid TA/DA admissible to grade – I officers of the Government of India.

ORDER

Ordered that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SATISH CHANDER
Joint Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th April 2008

RESOLUTION

No. F. 6-5/2005-U. 3

Whereas the Indian Institute of Advanced Study (IIAS) Society, Shimla, was re-constituted by the Government of India on the 28th September, 2005. Prof. Sabyasachi Bhattacharya, who was nominated member on the IIAS Society, has been appointed as Chairman of Indian Council of Historical Research, New Delhi. A vacancy has accordingly arisen. Hence, in accordance with the provisions of Rules 3(b) (ii), 25 and 30 of the Rules and Regulations on the IIAS Society, Shimla, the Government of India hereby nominates Shri Yamuna Prasad Pandey, Member, Executive Council, University of Allahabad, Allahabad as a member for the un-expired term of the membership.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

UPAMANYU BASU
Director (ICR)

New Delhi, the 16th April 2008

No. F. 10-6/2007-U. 3(A).—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as a deemed-to-be-university;

2. And whereas, on the recommendation of the UGC, Symbiosis International Educational Centre, Pune, comprising (i) Symbiosis Institute of Computer Studies and Research, (ii) Symbiosis Institute of Business Management and (iii) Symbiosis Society's Law College, was declared as deemed to be a university under the meaning of Section 3 of the UGC Act, 1956, vide this Ministry's notification No.F.9-12/2001-U.3 dated the 6th May, 2002;

3. And whereas, on the recommendation of the UGC, the following ten institutions were included under the ambit of Symbiosis International Educational Centre, Deemed-to-be-University, Pune for the purposes of the aforesaid Act, vide this Ministry's notification No.F.9-12/2006-U.3 (A) dated the 10th November, 2006;

- (i) Symbiosis Centre for Management and Human Resource Development
- (ii) Symbiosis Institute of International Business
- (iii) Symbiosis Institute of Telecom Management
- (iv) Symbiosis Institute of Management Studies
- (v) Symbiosis Institute of Mass Communication
- (vi) Symbiosis Institute of Operations Management
- (vii) Symbiosis Centre for Information Technology
- (viii) Symbiosis Institute of Geoinformatics
- (ix) Symbiosis Institute of Health Sciences
- (x) Symbiosis Institute of Design

4. And whereas, the name of Symbiosis International Educational Centre (SIEC) has been changed to Symbiosis International University vide this Ministry's notification in F. No. 9-11/2008 – U.3(A) dated the 25th March 2008;

5. And whereas, a proposal was received from the aforesaid deemed-to-be-university institution seeking permission to start off-campus centre in Bangalore;

6. And whereas, the University Grants Commission has examined the said proposal and vide its communication No.F.30-14/2007(CPP-I) dated the 27th December 2007 has recommended to this Ministry for recognizing the Symbiosis Institute of Management, Bangalore as an off-campus centre of Symbiosis International University, 'Deemed-to-be-University, Pune;

7. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section of the UGC Act, 1956, and on the recommendation of the UGC referred to in para 6 above, do hereby allow that 'Symbiosis Institute of Management' Bangalore, shall be an off-campus centre in the ambit of Symbiosis International University, for the purposes of the aforesaid Act, subject to a condition that the institute shall maintain the student intake capacity of 150 in respect of the course of

MBA proposed to be offered in the functional and sectoral areas like, Marketing, Information Technology, Finance, Operational Management, Human Resource Management, etc.

8. With this declaration, the Central Government permits Symbiosis International University, 'Deemed-to-be-University', Pune to commence the proposed academic programme, viz, MBA, at the Symbiosis Institute of Management, Bangalore as also to admit students for the said course with effect from the academic year 2008-2009 subject to adherence of the extant norms and guidelines of the All India Council for Technical Education (AICTE) and the UGC pertaining to starting of new management institutions, starting of new management and technical academic programmes, intake capacity of students, etc. The 'deemed-to-be-university' institution shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC. The performance of Symbiosis Institute of Management, Bangalore shall be monitored by the UGC initially on yearly basis for a period of 3 years and subsequently after every 5 years.

9. The declaration made in Para 7 above is subject to further conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification.

10. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to Symbiosis International University or its constituent teaching units.

SUNIL KUMAR
Joint Secretary

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 8th April 2008

Subject: 'PRAKRITIKA URJA AWARD SCHEME' to encourage writing of original book in Hindi in the field of New and Renewable Sources of Energy.

No. 11019(2)/2003- Hindi-Part-I

With Reference to this Ministry's O.M. No. 11019(2)/87- Hindi Dated 27.4.1988 and in Continuation of order no. 11019(2)/2003- Hindi-Part-I dated May 5th, 2004, I am directed to state that under this Scheme the amount of prizes have been increased as under with effect from this year (Calendar year 2007) :-

- | | | | |
|----|----------------|-----------------|--------------|
| 1. | First Prize- | Rs. 20,000/- to | Rs. 50,000/- |
| 2. | Second Prize - | Rs. 15,000/- to | Rs. 30,000/- |
| 3. | Third Prize - | Rs. 10,000/- to | Rs. 20,000/- |

2. Accordingly Para No. 3 of the aforesaid O.M. dt. 27.4.1988 stands modified to that extent.

ORDER

Ordered that a copy each of this order be sent to all the Ministries and Departments of Government of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, all the State Governments/Union territories and all the Universities of India .

Ordered also that a copy of this order be published in the gazette of India for general information.

A. K. KAUSHIK
Deputy Secretary